



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 12.06.2022

**1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल व 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कार0 315 बोर बरामद।**

थाना बिसरख पुलिस के द्वारा दिनांक 12.06.2022 को नया हैबतपुर कब्रिस्तान तिराहे से अभियुक्त 1. विशाल पुत्र बन्टी पान्वाल निवासी ग्राम नरा थाना मन्सूरपुर जिला मुजफ्फरनगर हाल पता फाजिल त्यागी की बिल्डिंग मैटीरियल की दुकान इटैडा गोल चक्कर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर 2. सौरभ पुत्र सुन्दर निवासी गाव नान थाना पिलखवा हापुड वर्तमान पता ग्राम इटैडा गोल चक्कर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोटर साइकिल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 355/2022 धारा 379/411 भादवि) व 01 तमन्चा नाजायज 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर बरामद हुए है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. विशाल पुत्र बन्टी पान्वाल निवासी ग्राम नरा थाना मन्सूरपुर जिला मुजफ्फरनगर बताया तथा हाल पता फाजिल त्यागी की बिल्डिंग मैटीरियल की दुकान इटैडा गोल चक्कर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. सौरभ पुत्र सुन्दर निवासी गाव नान थाना पिलखवा हापुड बताया तथा वर्तमान पता ग्राम इटैडा गोल चक्कर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 355/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 358/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. 01 मोटर साइकिल (सम्बन्धित मु0अ0सं0 355/2022 धारा 379/411 भादवि)
2. 01 तमन्चा नाजायज 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर



**#कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर में एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट, श्रम विभाग और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा चाइल्ड लाइन द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर डीएलएफ मॉल नोएडा में बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से तथा उन बच्चों को शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए चलाया गया एक जागरूकता अभियान ।**

दिनांक 12.06.2022 को सोशल डेवलपमेंट रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप(SADRAG)एवं श्रम विभाग द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर डी.एल.एफ, मॉल ऑफ इंडिया, जिला गौतमबुद्धनगर, में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बाल श्रम के बारे में जागरूक करना तथा यह बताना कि किस कारण, बाल श्रम बढ़ जा रहा है। यह कार्यक्रम डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में किया गया जिसका उद्देश था कि शिक्षित लोगो को जागरूक किया जाए जिसे की वह ओर लोगो को जागरूक कर सके। यह भी देखा जा रहा है की आज कल बच्चो से घरों में घरेलू श्रमिक के तौर पर कार्य कराया जा रहा है।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने बाल श्रम को दिखाया और बताया कि बाल श्रम किस तरह कराया जा रहा है। फैपलेट्स तथा वीडियो के माध्यम से बाल श्रम के बारे में जागरूक किया।

एएचटीयू टीम ने लोगो को जागरूक किया कि उनकी टीम किस प्रकार हेल्प करती है जिन बच्चो से काम कराया जाता है एवं लोगों से विस्तर रूप से इस विषय पर चर्चा की।

ग्रेटर नोएडा चाइल्ड लाइन टीम ने लोगो से विश्व बाल श्रम निषेध पर संवाद किए लोगो से सवाल पूछे और सही जवाब देने पर उसको उपहार भी दिया गया।

इस कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त श्रम विभाग, सुभाष यादव, श्रम परिवर्तन आयुक्त डॉ संजय लाल, सब इंस्पेक्टर श्री आनंद कुमार(एएचटीयू टीम), ग्रेटर नोएडा चाइल्ड डायरेक्टर, डा.माला भण्डारी, प्रोग्राम मैनेजर अदनान उस्मानी, चाइल्ड लाइन कॉर्डिनेटर उन्नति, ऋषभ, असद, चाइल्ड लाइन टीम पूजा, राजकुमारी, अखिलेश आदि मौजूद रहे।

